

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 371]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 सितम्बर 2018 — भाद्रपद 31, शक 1940

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 22 सितम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-29/2008/25-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अधीनस्थ सेवा (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. अनुसूची — दो के सरल क्रमांक 11 के कॉलम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“पदोन्नति कोटा:- 15% पदों को, लिपिक वर्गीय संवर्ग (सहायक ग्रेड-दो एवं सहायक ग्रेड-तीन) से भरा जायेगा एवं 25% को, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी “द” से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरा जायेगा।”

2. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 9 के कॉलम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“मानव विज्ञान/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान में स्नातक या समकक्ष उपाधि। मानवविज्ञान/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि

या समकक्ष उपाधि धारक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। प्राथमिकता से अभिप्रेत है लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में मानव विज्ञान/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि धारक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उपर्युक्त अर्हता के साथ समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, अभ्यर्थी जिसका जन्म पहले हुआ हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।”

3. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 7 के कॉलम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
 “छात्रावास अधीक्षक श्रेणी ‘द’ जो अनुसूची तीन में मंडल संयोजक के लिए विहित अर्हता रखते हो।”
4. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 7 के कॉलम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
 1. अपर संचालक, आदिम जाति तथा अनु0जा0विकास-अध्यक्ष,
 2. उपायुक्त (स्थापना-2/3),- आदिम जाति तथा अनु0जा0विकास -सदस्य,
 3. उपायुक्त (स्थापना-5),- आदिम जाति तथा अनु0जा0विकास -सदस्य,
 4. उप संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान-सदस्य,

No. F I-29/2008/25-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendments in the Chhattisgarh Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development Department Sub-ordinate(Class-III-Non-Ministerial) Recruitment Rules, 2011, namely:-

AMENDMENT

In the said rules;

1. For Column (6) of serial number 11 of Schedule-II, the following shall be substituted, namely:-
 "Promotion Quota:- 15% seats shall be filled out of Clerical Cadre (Assistant Grade-II and Assistant Grade-III and 25% shall be filled out of Hostel Superintend Grade- "D" through Department Examination."
2. For Column (5) of serial number 9 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely:-
 "Graduate or equivalent degree in Anthropology/Sociology/Psychology Candidates holding Post Graduate or equivalent degree in Anthropology/Sociology/Psychology/Social Welfare shall be given preference. Preference means in case of the scores securing in Written Examination/Interview are same, candidates holding Post Graduate or equivalent degree in Anthropology/Sociology/Psychology/Social Welfare shall be preferred. In the

event of candidate's Securing equal scores with qualification as above candidates born earlier shall be preferred."

3 For Column (2) of serial number 7 of Schedule-VI, the following shall be substituted, namely:-

"Hostel Superintend Grade "D" who are eligible for Circle Organizers prescribed in Schedule-III."

4. For Column (5) of serial number 7 of Schedule-VI, the following shall be substituted, namely:-

- "1. Additional Director, Tribal and Scheduled Caste Development- Chairman.
2. Deputy Commissioner (Establishment 2/3) Tribal and Scheduled Caste Development- Member.
3. Deputy Commissioner (Establishment 5) Tribal and Scheduled Caste Development- Member.
4. Joint Director, Tribal and Scheduled Caste Development- Member."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.एम. मिंज, संयुक्त सचिव.